

पथ का नाम: Nankar to Durgwaliya

**Schedule XLV-Form No. 134**

(FDR)

कार्यपालक अभियंता  
ग्रामीण सर्व विधायक सभा प्रमाणित  
नस्तिष्ठान


**DIVISION**

प्रखंड - नरकटि गांज

नरकटि गांज **SUB-DIVISION**

M.B. No. 1600/2021-22

**MEASUREMENT BOOK**



प्रमाणित किया जाता है। इसे  
 मापी छला में कम 1 से 100  
 तक अल 100 टुकड़े हैं। यह  
 मापी छल व्यापक अनियंत्रित  
 ग्रामीण कार्यपालक कामों  
 पर्सनल नरकटियांग ने  
 नियंत्रित किया जाता है।

कार्यपालक अभियंता  
 ग्रामीण कार्य विभाग, सर्व ग्राम  
 नरकटियांग

Re-issued to Sri Bipin Kumar  
 P.E. Work Section Narkatingam

सहायक आपरेशन  
 ग्रामीण कार्य विभाग  
 सर्व ग्राम नरकटियांग, नरकटियांग

Sch. XLV Form No. 134

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, सर्व ग्राम

नरकटियांग

DIVISION

नरकटियांग SUB-DIVISION

## Measurement Book

No. 1600

2021-22

Name of Officer \_\_\_\_\_

FDR - 2021

Name of Work-

Situation of Work-

Agency by which work is executed-

Date of Measurement-

No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement  
of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work:					Restoration of
					Narkar to Durgwaliya
Under					FDR
Authority:					Executive Engineer
					Road Works Division
					Narkaryagaj
Agency:					Departmental
Block:					Narkaryagaj
Division:					Narkaryagaj
Dist.					West Champaran
Record Entry					

Details of work done.

Date of measurement 05.08.2021

1) Provision of laying

dry graded brick bats

including light ramming

are all completed on 1/8

$$1 \times 20.00 \text{ m} \times 0.05 \text{ m} \times 0.45 \text{ m} = 36.00 \text{ m}^3$$

$$1 \times 26.00 \text{ m} \times 3.25 \text{ m} \times 0.30 \text{ m} = 29.25 \text{ m}^3$$

$$1 \times 30.00 \text{ m} \times 3.60 \text{ m} \times 0.45 \text{ m} = 54.00 \text{ m}^3$$

Grand Total 119.30 m<sup>3</sup>

Wet

Wet

Date  
05/08/2021

Read

05/08/2021

A.E.

MOLE 1000

Days 21

Total 145.00 m<sup>3</sup>

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement			Contents of area
	No.	L	B.	
<u>Further Measurements</u>				
Date of measurements : 02.09.2021				
Work done				
1) Providing & laying dry gravel road base including right running etc. at 8 - 11.5				
$1 \times 25.00 \text{ m} \times 3.30 \text{ m} \times 0.30 \text{ m} = 24.75 \text{ m}^3$				
$1 \times 12.00 \text{ m} \times 1.00 \text{ m} \times 0.30 \text{ m} = 3.60 \text{ m}^3$				
$1 \times 10.00 \text{ m} \times 1.20 \text{ m} \times 0.25 \text{ m} = 3.00 \text{ m}^3$				
$1 \times 18.00 \text{ m} \times 0.90 \text{ m} \times 0.20 \text{ m} = 4.86 \text{ m}^3$				
$1 \times 10.00 \text{ m} \times 1.00 \text{ m} \times 0.25 \text{ m} = 2.50 \text{ m}^3$				
$1 \times 8.00 \text{ m} \times 1.00 \text{ m} \times 0.20 \text{ m} = 1.60 \text{ m}^3$				
<u>Total B.R</u>				
<u>Cr. Net</u>				
Total B.R				
/				

## Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area	
	No.	L.	B.	D.		
<u>Abstract of cost</u>						
<u>Details of work done</u>						
1) <u>providing &amp; laying</u> <u>dry graded brick walls</u> <u>including light ramming</u> <u>etc. all complete as</u> <u>per Technical Specfia</u>						
Qty value T.M.D P-01 - 114.30 M <sup>3</sup>						
Buy value T.M.D P-02 - 46.31 M <sup>3</sup> 154.61 M <sup>3</sup>						
154.61 M <sup>3</sup> @ 421.92 M <sup>3</sup> /M <sup>3</sup> = 14331257.00						
G.S.T @ 12% 1439757.00						
L.C.E.S.B @ 1% 143313.00						

Surcharge fee 1428718.00

Total 14403,069.00

Verified & found correct (Signature) 26/11/2021Column  
26/11/202126/11/2021  
A.E.1P1P1B26/11/2021  
E.F.